

Phn.: 92122 00000

ROCKINGDEALS CIRCULAR ECONOMY LIMITED

Reg. Office: 12/3, Milestone, Near Sarai Metro Station, Mathura Road, Faridabad, Haruana-121003

09th September, 2025

To,

National Stock Exchange of India Limited

Listing Department Exchange Plaza, C/1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400051

Trading Symbol: ROCKINGDCE

Subject: Submission of Newspaper Publication of the Notice of 23rd AGM / Book Closure and Remote E-voting

Dear Sir/Madam.

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and in compliance with various circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, please find enclosed herewith the copies of Notice of the 23rd AGM published in "Financial Express" (English Edition) and "Jansatta" (Hindi editions) dated September 09, 2025 confirming:-

- 1. Financial Express (in English Edition) on Tuesday, 09th September, 2025
- 2. Jansatta (in Hindi Edition) on Tuesday, 09th September, 2025

The copies of the said newspaper advertisements are also available on the website of the Company at www.rdcel.com

Thanking You Yours Faithfully,

For Rockingdeals Circular Economy Limited

Deepika
Dixit

Dixit

Disitally signed by Deepika Dixit

Date: 2025.09.09
15:30:10 +05'30'


(Deepika Dixit)

Company Secretary & Compliance officer

ICSI Membership No: ACS61222



FINANCIAL EXPRESS



NOIDA TOLL BRIDGE COMPANY LIMITED

CIN:L45101DL1996PLC315772 Regd. Off: Toll Plaza, Mayur Vihar Link Road, New Delhi -110091, INDIA

Corporate Off: Toll Plaza, DND Flyway, Noida-201 301, U.P. India Phone: 0120 2516495. Website: www.ntbcl.com. Email:ntbcl@ntbcl.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Opening of Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares

Notice is hereby given that pursuant to SEBI Circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 Dated July 2, 2025, the Company has opened a Special Window exclusively for the re-lodgement of transfer deeds, which were lodged prior to the deadline of April 1, 2019 and rejected/returned/not attended due to the deficiency in the documents/process/ or otherwise. The Special Window will remain open till January 6, 2026.

Investors may submit their requests till January 6, 2026, with the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Company. The details of the RTA are as under:

Kfin Technologies Limited

Selenium Building, Tower B, Plot 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi, Telangana – 500032 Tel. No.: +91 40 6716 2222 / 7961 1000, Email: einward.ris@kfintech.com

request-demat process will be followed as per SEBI guidelines.

us via email at ntbcl@ntbcl.com or call us at 0120-2516495.

The Shares that are re-lodged for transfer, if approved will be issued only in demat mode. The due transfer-cum-

For further information, please refer to the link for SEBI circular https://www.sebi.gov.in/legal/circulars/jul-2025/easeof-doing-investment-special-window-for-re-lodgement-of-transfer-requests-of-physical-shares_94973.html or contact

> For Noida Toll Bridge Company Limited **Gagan Singhal**

Date: September 5, 2025 Place: New Delhi

Company Secretary & Compliance Officer FCS 7525

ALCHEMIST CORPORATION LIMITED CIN: L74899DL1993PLC055768

Regd. Office: 44, Innov 8, Backary Portion, Regal Building, Connaught Place, Delhi-110001

info@alchemist-corp.com / 011-49096562 https://www.alchemist-corp.com/

NOTICE OF THE 32™ ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING

Notice is hereby given that the 32rd Annual General Meeting ("AGM"/"Meeting") of Alchemist Corporation Limited ("Company") will be held on Tuesday September 30, 2025 at 4 P.M. IST through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") being provided by the National Securities Depositories Ltd (NSDL) without the physical presence of the Members at a common venue, in compliance with the General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, latest being General Circular No.09/ 2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 read with Master Circular No. SEBI/HO/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated November 11, 2024 respectively issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") read together with other previous Circulars issued by SEBI in this regard (collectively referred to as "SEBI Circulars") to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM.

Members attending the 32rd AGM through VC/OAVM will be considered for quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In accordance with the said MCA Circulars and SEBI Circulars, the Company has sent the Notice of the AGM along, the Explanatory Statement and the Integrated Report and Annual Accounts for FY 2024-25 along with the Notes thereto ("Annual Report") through electronic mode to all its Members whose e-mail IDs are registered with the Company/Depository Participants ("DPs"). The electronic dispatch of the Notice and the Annual Report has been completed on September 06, 2025 and these will also be available on the website of the Company at https://www.alchemist-corp.com/ and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com and also on the website of BSE Limited at www.bseindia.com.

In accordance with Regulation 36(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), a physical communication has been sent to those shareholders whose email IDs are not registered, containing the weblink and exact path of the Company's website from where the Annual Report can be accessed.

The Members can join and attend the AGM through VC/OAVM facility only or view the live webcast of the proceedings. The detailed procedure for e-Voting and participation in the AGM through VC/OAVM or to view the live webcast is provided in the Notes to the Notice for the Members holding shares in demat mode, physical mode and for the Members who have not registered their e-mail ID.

The Members may join the Meeting thirty (30) minutes before the scheduled time and the login shall be kept open throughout the Meeting. The Members who have casted their vote by remote e-Voting facility before the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Those Members who participate in the AGM through VC/OAVM and have not casted their vote through remote e-Voting facility may cast their vote during the AGM.

The remote e-Voting facility before the date of the AGM will be available during the following voting period (both days inclusive):

Commencement of remote e-Voting From 9:00 a.m. (IST) on 26* September, 2025 End of remote e-Voting Upto 5:00 p.m. (IST) on 29th September, 2025

The remote e-Voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time and shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e., September 23, 2025 Tuesday, 2025 only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before the AGM and facility of e-Voting during the AGM. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat the AGM Notice for information purpose only. Once the vote on a resolution is casted by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights of the Members shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date. Any person holding shares in physical mode and non-individual shareholders, who acquire shares of the Company and become Member of the Company after the dispatch of Notice and hold shares as on the cut-off date, may obtain the login ID and password for e-Voting facility, by sending a request at evoting@nsdl.com.

In case of any queries/complaints related to e-Voting i.e., before and/or during the AGM, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-Voting user manual for shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or contact NSDL on evoting@nsdl.com or call at 022-4886 7000 or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager at the designated e-mail ID at evoting@nsdl.com. For any further assistance, Members may also contact Mr. Nitin Kumar, Company Secretary and Compliance Officer of the Company at Telephone: 9560729989 or at email id : info@alchemist-corp.com

The Company has appointed Mr. Vijay Singhal (CP No.10385), failing him, Mr. Rizwan Khan (CP No 27281), Partners of M/s. Sanjay Grover & Associates, Company Secretaries, New Delhi to act as the Scrutinizer for conducting the e-Voting process including remote e-Voting in a fair and transparent manner. The e-Voting results of the AGM along with the Consolidated Scrutinizer's Report will be declared as per the statutory timelines and will also be placed on the websites of the Company i.e. https://www.alchemist-corp.com/ Stock Exchanges i.e., www.bseindia.com, NSDL i.e., www.evoting.nsdl.com and shall also be displayed at the registered office of the Company. For Alchemist Corporation Limited

Date: September 9, 2025 Place: New Delhi, India

Nitin Kumar Company Secretary and Compliance Officer ACS: 74846

AGARWAL FORTUNE INDIA LIMITED (Formerly known as Devki Leasing and Finance Limited)

CIN: L74110RJ1993PLC085542

Registered Office: S-9-A. 2nd Floor, Sagar Ratna, Gopalpura Bypass Road, Shri Gopal Nagar, Jaipur 302019 (Raiasthan) Corporate Office: Third Floor, F-2264, RIICO Industrial Area; Ramchandrapura, Jaipur - 302022 (Rajasthan)

BOOK CLOSURE, RECORD DATE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Email Id: afiljaipun@gmail.com, Website: www.agarwalfortune.com, Contact: 91-7230043249 NOTICE OF 33[™] AGM OF AGARWAL FORTUNE INDIA LIMITED.

NOTICE is hereby given that the Thirty-Third (33rd) Annual General Meeting (AGM)of AGARWAL FORTUNE INDIA LIMITED (Formerly known as Devki Leasing and Finance Limited) ("the Company") will be held on Tuesday, 30th September, 2025 at 03:30 P.M.(IST) through Video Conferencing/Other Audio VisualMeans (VC/OAVM) facility to transact the businesses as set out in the

Notice of AGM which is being circulated for convening the AGM along with this notice. This is in compliance with the General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") various Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), including circulars dated May 5, 2020; January 13, 2021; December 8, 2021; December 14, 2021; and May 5, 2022, read together with circulars dated April 8, 2020; April 13, 2020; and December 28, 2022 (collectively referred to as "MCA Circulars") Additionally, it aligns with the guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") through circulars dated May 12, 2020; January 15, 2021; May 13, 2022; and January 5, 2023 (collectively referred to as "SEBI Circulars"). These regulations permits the Company for holding of the AGM through VC/OAVM without the physical presence of Members at a common venue, in accordance with Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018 along with all other relevant SEBI amendments. Agarwal Fortune India Limited is seeking approval of its members in respect of the businesses as set out in the Notice convening the AGM. In accordance with the Circulars issued by MCA and SEBI time to time, the Notice of the AGM has been sent electronically to

thosemembers whose names appeared in the Register of Members and the List of Beneficial Owners as on Friday, 29th August 2025; as received from National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") (collectively referred to as "Depositories"). And For shareholders who have not registered their email IDs, a letter containing a weblink and QR code for providing access to the Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2024-25, has been sent through registered post, in compliance with Regulation 36(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The dispatch of both email and physical communications was completed on September 8, 2025. The physical copies will only be provided to the members on request. Remote e-voting and e-voting during AGM: Company is pleased to provide the facility to members to exercise their right to vote byelectronic means on resolutions proposed to be passed at AGM. Members holding shareseither in physical form/

dematerialized form as on the cut-off date Tuesday, 23rd September, 2025 can cast their vote electronically through remote e-voting of NSDL at www.evoting.nsdl.com on all resolutions set forth in the notice convening AGM as perSection 108 of Companies Act, 2013, Rule 20 of Companies (Management andAdministration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI(LODR), 2015. The remote e-voting period begins from on Saturday, 27th September, 2025 (09:00 a.m. IST) and ends on Monday, 29th September, 2025 (05:00 p.m. IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Members whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the record date (cut-off date) i.e. Tuesday, 23rd September, 2025, may cast their vote electronically. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date, being Friday, 13th September, 2024. Manner of registering/updating email address:

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate

- (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to afiljaipur@gmail.com 2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client
- master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to afiljaipur@gmail.com. If you are an Individual shareholders holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at step 1 (A) i.e. Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode. For any queries or further assistance on KYC updation, demat holders are requested to contact their respective Depository

Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, Behind LSC, New Delhi - 110062. Ph. 011-29961281-283, 26051061, 26051064 Fax 011-29961284; e-mail: beetalrta@gmail.com Any person holding shares in physical form and non-individual shareholders, who acquires shares of the Company and becomes a

Participants and holders of physical folios are requested to reach out to the RTA at Beetal Financial & Computer Services Pvt Ltd.,

Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in with their DP ID and Pan card number. In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for

members available at the Downloads sections of https://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following toll-free no.: By order of the Board

022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000.

Date: 08.09.2025

Place: Jaipur

For AGARWAL FORTUNE INDIA LIMITED Aditi Parmar (M. No. A37301) (Company Secretary & Compliance Officer)

R PUNJAB & SIND BANK

Whereas,

S.

(A GOVT. OF UNDERTAKING)

KATRAS ROAD, BANK MORE BRANCH (D0325) DHANBAD-826001, JHARAHAND

APPENDIX IV

[Rule 8(1)]

POSSESSION NOTICE

(For Immovable Property)

The undersigned being the authorized officer of the Punjab & Sind Bank, Dhanbad Branch under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (second) Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with rule 3 of the security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 21-06-2025 calling upon the borrowers (M/S Deepak Fuel Private Limited through its directors Sh Ritvik Sultania S/O Late Jaideo Sultania & Ms. Vidushi Sultania D/O Late Jaideo Sultania), Guarantors (Sh Sanjeev Dalmia S/O Biswanath Dalmia, Smt. Anita Sultania W/O Late Jaideo Sultania) & Legal heirs of Late Jaideo Sultania (Sh Ritvik Sultania, Ms. Vidushi Sultania & Smt. Anita Sultania) to repay the amount mentioned in the notice being ₹ 3,04,60,620.18 (Three crore Four Lakh Sixty Thousand Six Hundred twenty and paisa eighteen only) as on 31.05.2025 for Overdraft Limit along with further costs and interest w.e.f. 01.06.2025 within 60 days of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the Undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section [4] of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 3rd Day of September 2025.

The borrowers/guarantors/legal heirs in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the Property will be subject to the charges of the Punjab & Sind Bank for amount of ₹ 3,04,60,620.18 (Three crore Four Lakh Sixty Thousand Six Hundred twenty and paisa eighteen only) as on 31.05.2025 for Overdraft Limit, along with further costs and interest w.e.f. 01.06.2025. The borrower's attention is invited to provision of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time

available, to redeem the secured assets. Description of the Immovable Property

Equitable mortgage of entire 2nd Floor with Roof rights, plot no 95, Block B, area 147.2 sq. Mtr. situated in the layout plan of ministry of commerce and industries Co-operative House Building Society Ltd known as Pushpanjali Enclave, Pitampura Delhi 34 as per title deed no 4977 dated 5th May 2000 registered in the Office of the Sub Registrar, Sub-Distt. No VI- Delhi and recorded/entered in Book no - I, Volume no. -1027, Pages-32 to 42 Being No ,4977 for the year 2000.

East: - Road 9 mtrs Date: 03.09.2025

Particulars

Place: New Delhi

Boundaries of property: - North: - Service Lane,

Sd/- Authorized Officer PUNJAB & SIND BANK

Year Ended

Mohit Chawla

Date of

South:-Plot no-B94

West:-Service Lane

Quarter Ended

20 05 2025 24 02 2025 20 05 2024 24 02 2025

RICHA INDUSTRIES LIMITED (UNDER LIQUIDATION) [CIN: L17115HR1993PLC032108] Registered Office: Plot No-29, DLF Industrial Area, Phase-II, Faridabad - 121003 (Haryana)

Website: richaindustries.com, Email: camohitchawla@gmail.com, Telephone No: +91 98880 03303 Statement of Standalone Financial Results for the Quarter Ended June 30, 2025 STANDALONE

No.	Particulars	30.06.2025	31.03.2025	30.06.2024	31.03.2025
NO.	A STATE OF THE STA	UNAUDITED	UNAUDITED	UNAUDITED	AUDITED
1	Revenue From operations	936.55			
11	Other Income	0.06			10.77
111	Total Income (I+II)	936.61	811.25	576.13	3,535.97
IV	EXPENSES		CONTRACT	2222	
	(a) Cost of materials consumed	863.81	470.04	364.23	2,022.61
	(b) Purchases of Stock-in-Trade	- X			+
	(c) Changes in inventories of finished goods, Stock-in -Trade and work-in-progress	19.55			
	(d) Employee benefits expense	190.69			
	(e) Other expenses	338.58	407.78	281.84	1,385.67
	(f) Finance costs	1	0.00	0.01	0.02
	(g) Depreciation and amortization expenses	108.15	117.80	130.39	492.87
	Total expenses (IV)	1,520.78		877.28	4,666.54
٧	Profit/(loss) before exceptional and extraordinary items and tax (III-IV)				
VI	Exceptional/ Extraordinary Items	(584.17)	(459.63)	(301.15)	(1,130.57)
VII	Profit/ (loss) before tax(V-VI)	- 4			
	Tax expense:	(584.17)	(459.63)	(301,15)	(1,130.57)
- C	(1) Current tax		-	1	-
	(2) Deferred tax	- 4	100	3	-
1X	Profit (Loss) for the period from continuing operations (VII-VIII)	(584.17)	(459.63)	(301.15)	(1,130.57)
	Profit/(loss) from discontinued operations	1136940100	125/12/00/07	1180000000	1181022004
XI	Tax expenses of discontinued operations	1	-	1	-
XII	Profit/(loss) from Discontinued operations (after tax) (X-XI)	7	1 1	4 2	
XIII	Profit/(loss) for the period (IX+XII)	(584.17)	(459.63)	(301.15)	(1,130.57)
XIV		100.00	1,000	-	277.02.0
MIA	A. (i) Items that will not be reclassified to profit or loss		-		-
-	(ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss	1	170	3	
	Sub-total (A)	1 7		4 7	
	B. (i) Items that will be reclassified to profit or loss	1	1 1	1	-
	(ii) Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss		-		
	Sub-total (B)	- 1			
	Total Other Comprehensive Income (XIV i.e. A+B)				
101	*Total Comprehensive Income for the period (XIII+XIV)	(584.17)	(459.63)	(301.15)	(1,130.57)
XV	(Comprising Profit (Loss) and Other comprehensive Income for the period)*	(gaare, e.g.	: (51091.45)	III for we all	College and the State of the St
200.00		2.351.69	2,351.69	2,351.69	2,351.69
XVI	(Face value of Rs. 10 per share)	10Kg/miletonic	(6) (600)	(B) SECTION	Uttigated School
200	Approximation of the control of the	(34,161.33)	(33,577.16)	#REF!	(33,577.16)
XVII	Other Equity	(34,101.33)	- Service Lines	PETALE	Special confi
	(excluding Revaluation Reserves as per				
	belance sheet of previous accounting year)				
XVIII	Earning per equity share in INR (for discontinued & continuing operation)	(20.00)	(1.96)	19.700	77.93
	(1) Basic	(2.49)	0.000-100-100		
Notes	(2) Diluted	(2.49)	(1.95)	(1.29)	(4.83)

The Statement of Quarterly Results has been compiled from the books of accounts maintained by the Company and has been prepared in accordance with applicable accounting principles, policies and regulations. The results are subject to limited review and are unaudited.

Note on Status under Insolvency and Benkruptcy Code, 2016.

The Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT), Chandigarh Bench, initiated the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) against. Richa Industries Limited by an order dated December 18, 2018, under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ("the Code").

Mr. Arvind Kumar was appointed as the Interim Resolution Professional (IRP) to manage the affairs of the Company in accordance with the Code. On January 17, 2019, the Committee of Creditors (CoC) confirmed the appointment of Mr. Arvind Kumar as the Resolution Professional (RP). The Hon'ble NCLT, Chandigarh Bench, passed a liquidation order on June 11, 2025, under Section 33 of the Code, and appointed Mr. Mohit Chawla as the

In light of the commencement of liquidation proceedings, the powers of the Resolution Professional, Mr. Arvind Kumar, have ceased, and all powers are now

vested with the Liquidator, Mr. Mohit Chawla, as per the provisions of the Code.

. Previous period/year figures have been regrouped/reclassified wherever necessary. The figures of the guarter ended 31 March 2024 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and published year

to date figures upto to the third quarter of the relevant financial year. JNAUDITED FINANCIALS RESULTS FOR THE JUNE QUARTER ENDED 2025 CAN BE ASSESSED THROUGH BY SCANNING THE QR CODE BELOW:

On Behalf of the Board of Directors For Richa Industries Limited

Date : 16-Aug-25 Place: CHANDIGARH **CAN FIN HOMES LTD**

SARFAES ACT) read with Rule 3(1) of the Security Interest (Enforcement) Rule ,2002 (Rules).

Name of the Borrowers/

(Liquidator) IP Registration No: IBBIAPA-001/IP-P00524/2017-2018/10949

Amount claimed as Schedule Of The

4 an Fin Homes Lta ELIBERTHEM HITCH

Sr.

SCO 34 & 35, 1ST Floor, Above Canara Bank, Sector 10A, Gurgaon, Ph No : 0124-2370035, Mob : 7625079135 E- Mail: gurgaon@canfinhomes.com

DEMAND NOTICE

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of Can Fin Homes Ltd., under SARFAESI Act and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3, issued Demand Notice under Section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrowers/guarantors listed hereunder (hereinafter referred to as the "said Borrowers.), to repay the amounts mentioned in the Notice, within 60 days from the date of receipt of Notice, as per details given below. The said Notices have been returned undelivered by the postal authorities / have not been duly acknowledged by the borrowers. Hence the Company by way of abundant caution is effecting this publication of the demand notice (as per the provisions of Rule 3 (1)). The undersigned has, therefore, caused these Notices to be pasted on the premises of the last known addresses of the said Borrowers, as per the said Act. As security for due repayment of the loan, the hollowing assets have been mortgaged to the Company by the respective parties as detailed below.

No.	Guarantors with address	per Demand Notice	Mortgaged Property	N.P.A
1	 Mrs. Kalawati Khendelwal W/o Mr. Santosh Kumar Khendelwal (Borrower) Flat No.6, House No. 2035/3, Gali No.3, Near Shiv Mandir, Rajiv Nagar, Gurgaon, Haryana, Pin-122001 Mr. Tushar Khendelwal S/o Mr. Santosh Kumar Khendelwal (Co-Borrower) Flat No.6, House No. 2035/3, Gali No.3, Near Shiv Mandir, Rajiv Nagar, Gurgaon, haryana, Pin-122001 Mrs. Kalawati Khendelwal W/o Mr. Santosh Kumar Khendelwal (Borrower) Flat No. 106 Without Roof Right On First Floor, Divya Apartment, Plot No.40, Khewat/khata No. 2506, Khasra No. 1447, Dayanand Colony, Gurugram, Haryana, Pin-122001 Mr. Tushar Khendelwal S/o Mr. Santosh Kumar Khendelwal (Co-Borrower) Flat No. 106 Without Roof Right On First Floor, Divya Apartment, Plot No.40, Khewat/khata No. 2506, Khasra No. 1447, Dayanand Colony, Gurugram, Haryana, Pin-122001 Mr. Amardeep S/o Mr. Bharpur Singh (Guarantor) Talao, Talao (112), Jhajjar, Haryana, Pin-124103 	(Rupees Thirty One Lakh Fifteen Thousand Two Hundred And Four Only) as on Demand Notice 02/09/2025	Flat No. 106 Without Roof Right On First Floor, Divya Apartment, Plot No.40, Khewat/ Khata No. 2506, Khasra No. 1447, Dayanand Colony, Gurugram, Haryana, Pin-122001 Boundaries Of The Property Are As Under North: Flat No. 105, South: Flat No. 107, East: Passage West: Other Property.	29-08-2025
2	 Mrs. Pooja Singh W/o Mr. Sushil Gupta (Borrower) House No.318, Ground Floor, Gali No.4, Ram Nagar, Near Bhuteshwar Mandir And Sai Mandir, Gurgaon, Haryana, Pin- 122001 Mr. Sushil Gupta S/o Mr. Sheetla Prasad (Co-Borrower) House No.637/7, Ward No.9, Subhash Nagar, Gurgaon, Haryana, Pin-122001 Mrs. Pooja Singh W/o Mr. Sushil Gupta (Borrower) Flat No. TF-301 Without Roof Rights, Plot No.73, Khasra No.3951/2674-75/1717/7-8, Lajpat Nagar, Gurugram, Haryana, Pin-122001 Mr. Sushil Gupta S/o Mr. Sheetla Prasad (Co-Borrower) Flat No. TF-301 Without Roof Rights, Plot No.73, Khasra No.3951/2674-75/1717/7-8, Lajpat Nagar, Gurugram, Haryana, Pin-122001 Mrs. Rashika Singh W/o Mr. Mukesh Singh (Guarantor) 	(Rupees Thirty One Lakh Ninety Nine Thousand And Ninety Nine Only) as on Demand Notice	Flat No. TF-301 Without Roof Rights, Plot No.73, Khasra No.3951/2674- 75/1717/7-8, Lajpat Nagar, Gurugram, Haryana, Pin-122001 Boundaries Of The Property Are As Under North: House No.74, South: House No.72 East: Other Property West: Passage & Flat No.302	

Payable with further interest &contractual rates as agreed from the date mentioned above till dated payment.

House No. D-3350. First Floor, Chanderlok, DLF Phase 4.

Chakarpur (74), Farrukhnagar, Gurugram, Haryana, Pin-

Date: 08-09-2025 Place: Gurugram

You are hereby called upon to pay the above said amount with contracted rate of interest thereon within 60 days from the date o publication of this notice, failing which the undersigned will be constrained to Initiate action under SARFAES I Act to enforce the aforesaid security. Further, the attention of borrowers/guarantors is invited to provisions of Section 13 (8)of the Act, in respect of time available to them to redeem the secured assets.

epaper.financialexpress.com

NRP Defense Ltd. Regd. office: B-149 2th Floor Dayanand Colony Lajpat Nagar 4 New Delhi 110024.

Corporate office: 2nd Floor, Plot No. B-103, South City-I, Gurugram, Harvana-122001. CIN: L26515DL1981PLC012621, Contact: +91 8655875993, Email ID: rrpdefense@gmail.com NOTICE OF 44th ANNUAL GENERAL MEETING REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the Annual General Meeting (AGM) of the members of RRP Defens Limited formerly known as Euro Asia Exports Limited (the Company) will be held on Monday, 29th day of September, 2025 at 12:00 P.M. IST through Video-Conferencing/Other Audio-visual means(VC/OAVM) to transact the businesses as set out in the Notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and Rules framed thereunder read with General Circular issued from time to time, respectively circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"). Electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year ended March 31, 2025 of the Company has been sent to all the members, whose email ids

are registered with the Company/RTA/Depository participant(s), as on the cut-off date i.e. 22^{et} September, 2025. Please note that the requirement of sending physical copy of the Notice of the AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars. The Notice and the Annual Report will also be available and can be downloaded from the website of the Company www.euroasiaexports/td.com The facility of casting the votes by the members ("e-voting") will be provided by NSDL ('National Securities Depository Limited') and the detailed procedure for the same is provided in the Notice of the AGM. The remote e-voting period commences on Friday, 26th September,

2025 to Sunday, 28th September, 2025 During this period, members of the Company

holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 22" September, 2025, may cast their vote by remote e-voting or by e-voting at the time of AGM. Members participating through in person shall be counted for reckoning the quorum under Section 103 of the Act. Members, who are holding shares in physical/electronic form and their e-mail addresses are not registered with the Company/their respective Depository Participants, are requested to register their e-mail addresses at the earliest by sending scanned copy of a duly signed letter by the Member(s) mentioning their name, complete address; folio number, number of shares held with the Company along with self-attested scanned copy of the PAN Card and

self-attested scanned copy of any one of the following documents viz., Aadhar Card, Driving License, Election Card, Passport, utility bill or any other Govt. document in support of the address proof of the Member as registered with the Company for receiving the Annual Report 2024-25 along with AGM Notice by email to into@skylinerta.com Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participants. The notice of the AGM contains the instructions regarding the manner in which the shareholders can cast their vote through remote e-voting or by e-voting at the time of AGM. The Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from

Monday, 22nd September, 2025 to Monday, 29th September, 2025 (both days inclusive). The Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2024-25 sent to members in accordance with the applicable provisions in due course.

For RRP Defense Limited (Formerly Euro Asia Exports Limited)

Rajendra Kamalakant Chodankar

Managing Director DIN-00665008

Regd office: Jaipur Hospital, Near SMS Stadium, Lal Kothi, Tonk Road, Jaipur. Phone: 0141-2742557, 2742266, CIN: L85110RJ1989PLC005206 E-Mail: sharmaeastindia@gmail.com Website: www.jaipurhospital.co.in

> NOTICE OF THE 36" ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING & BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 36" Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Sharma

East India Hospitals And Medical Research Limited ("the Company") will be held through Video-Conferencing or Other-Audio Visual Means on Tuesday, September 30th, 2025 at 03:00 p.m. IST in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circulars dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020 and Subsequent circulars issued in this regard, the latest being 10/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI Circular dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022, January 05, 2023, September 25, 2023, and 03 October, 2024 issued by SEBI (collectively referred to as Circulars') without the physical presence of the members of the Company to transact the business(s) as set out in the Notice of the AGM. Members will be able to attend and participate in the ensuing AGM through Audio Visual Means and the facility of appointment of proxy will not be available. Members attending the AGM through audio visual means will be counted for the purpose of reckoning quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Registered Office of the Company shall be the deemed venue of the meeting.

In compliance with relevant Circulars, the electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2024-2025 has been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/ Depository participant(s) The same is also available on the website of the Company at www.jaipurhospital.co.in, on the website of Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.. Members are requested to note that the physical copies of the aforesaid documents will not be made available to them by the Company. The dispatch of Notice of AGM and Annual Report has been completed on September 08th, 2025.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Tuesday, September 23rd, 2025 may cast their vote electronically on the Business(es) as set out in the Notice of the 36thAGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited from a place other than the Venue of AGM ("remote e-voting"). The remote evoting shall commence on Saturday, September 27th, 2025 (at 9.00 a.m.) and end on Monday, September 29th, 2025 (at 5.00 p.m.)

Person who acquires shares of the Company and becomes the member of the Company after the dispatch of Notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. Tuesday, September 23rd, 2025 can follow the process of generating the login ID and password as provided in the Notice of AGM. Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by the NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on the resolution is cast by the member the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the member who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; c) the facility for voting through E-voting shall be made available during the course of AGM for those who have not voted previously; and d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owner maintained by the depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the

available at https://www.evoting.nsdl.com under help section or write an e-mail to evoting@nsdl.com or at telephone nos.: 022 - 4886 7000 who will address the grievance connected with the facility for voting by electronics means. The company has appointed Mr. Hemant Shetye (FCS-2827) and/or Mr. Kunal Sakpal (ACS-75123), Designated Partner of HSPN & Associates LLP, Practicing Company Secretaries, as the

In case of any queries, members refer Frequently Asked Question (FAQ's) and e-voting manual

Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner The Register of Members and Share Transfer Register in respect of equity shares of the Company will remain closed from Wednesday, September 24, 2025 to Tuesday, September 30, 2025 (both

This is being issued for the information and benefit of the Members of the Company, in compliance with relevant Circulars, as referred herein above.

For Sharma East India Hospitals And Medical Research Limited

Place: Jaipur Shailendra Kumar Sharma (Managing Director) (DIN: 00432070) Date: 08.09.2025

DEALS ROCKINGDEALS CIRCULAR ECONOMY LIMITED CIN: L29305DL2002PLC116354, Regd. office: 12/3 Milestone, Near Sarai Metro Station, Mathura Road,

Faridabad, Haryana-121003 Website: www.rdcel.com, E-mail: compliance@rockingdeals.in NOTICE OF THE 23RD ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH

VIDEO CONFERENCING ('VC')/OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ('OAVM')

Notice is hereby given that the 23rd Annual General Meeting ("e-AGM") of the members of Rockingdeals Circular Economy Limited ('the Company') is scheduled to be held on Tuesday, September 30, 2025 at 03:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ('VC')/Other Audio-Visual Means ('OAVM') without physical presence of the members at the venue in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, and subsequent circulars issued in this regard, the latest being Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the

In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the 23rd e-AGM and Integrated Annual Report for the Financial Year 2024-25, have been sent on September 06th, 2025, to all the members whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent viz. Bigshare Services Pvt. Ltd. In accordance with Regulation 36(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ('SEBI Listing Regulations, 2015'), a physical communication was sent to those shareholders whose E-mail IDs are not registered, containing the weblink and exact path of the Company's website from where the Annual Report can be accessed. A physical copy of the Notice along with the Integrated Annual Report shall be dispatched solely to those Members at their registered addresses who explicitly request for the physical copy. Further, the documents pertaining to the items of business to be transacted in the e-AGM shall be made available for inspection as per the

The Notice of e-AGM will be made available on the following websites for the convenience of the members:

1. Company's website: www.rdcel.com

2. Website of Stock Exchange: National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com

Beneficial Owners as on the 'cut-off date' i.e. Tuesday, September 23, 2025, shall be entitled to vote on the resolutions set forth in Notice of 23rd e-AGM. Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of the e-AGM Notice and holding shares as on the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request from their registered email ID at prasadm@bigshareonline.com

e-Voting') will be provided by NSDL. The details of remote e-Voting are as below: Commencement of Remote e-voting | Saturday, September 27, 2025 (9.00 a.m. IST)

The facility for remote e-voting shall also be made available at the e-AGM for the Members who have not already cast their vote prior to the e-AGM and will be kept open for 30 minutes at the end of the e-AGM. Members who have cast their vote by remote e-voting

provided in the Notice of 23rd e-AGM. Procedure to register as a speaker and for posting your queries:

Members who would like to express their views/ask questions as a speaker at the Meeting

16th September, 2025 (5.00 p.m. IST). The Company reserves the right to restrict the number of questions and number of speakers to be considered during the e-AGM, depending upon availability of time for the

e-AGM. Further the detailed procedure for the same is provided in the Notice of 23rd e-AGM. for ROCKINGDEALS CIRCULAR ECONOMY LIMITED

Deepika Dixit

Place: Faridabad Sd/- Authorized Officer Can Fin Homes Ltd

Date: 06/09/2025

New Delhi

Place: Delhi Date: 08.09.2025

SHARMA EAST INDIA HOSPITALS & MEDICAL RESEARCH LIMITED

Under Section 13 (2) of the Securitision and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 Ministry of Corporate Affairs (MCA), and other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars'), Circular No. SEBI/HO/PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 3rd October, 2024, issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI)

procedure outlined in the Notice of 23rd e-AGM.

3. Bigshare website: https://www.bigshareonline.com/ Only those members, whose names are recorded in the Register of Members/list of

Remote e-voting and voting at the e-AGM details:

The facility of casting the votes by the Members using an electronic voting system ('remote

Monday, September 29, 2025 (5.00 p.m. IST) End of Remote e-voting

prior to the e-AGM may attend and participate in the e-AGM but shall not be entitled to cast Members will be able to attend the e-AGM by accessing https://www.evoting.nsdl.com/. Further, the detailed procedure for joining the e-AGM and remote e- voting has been

may pre-register themselves by sending a request from their registered e-mail address mentioning their names, DP ID and Client ID/folio number, PAN and mobile number at Compliance@rockingdeals.in between 09th September, 2025 (9.00 a.m. IST) and

Company Secretary & Compliance Officer



पंजीकृत कार्यालय: 4था तल, ए विंग, डी.जे. हाउस, ओल्ड नगरदास रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400069, महाराष्ट्र, जीएसटी सं: 27AAACD9887D1ZC

कॉपोरेंट पहचान संख्याः L64920MH1994PLC334457

सार्वजनिक सूचना

आम जनता की सूचित किया जाता है कि टुकैप फाइनेंस लिमिटेड द्वारा गिरवी रखे गए सोने के आधुषणी की नीलामी 25 सितंबर 2025 को नोएडा सेक्टर-18 में सुबह 11:00 बजे में आयोजित की जाएगी। शाखा का पताः टुकैप फाइनेंस लिमिटेड, नोएडा सेक्टर-18, 1ली मॅजिल, ऑफिस नं. 102, विशाल चैंबर, सेक्टर-18, नोएडा-201301

नीलाम किए जाने वाले सोने के आभूषण हमारे उन विभिन्न ग्राहकों के ऋण खातों से संबंधित हैं जो अपनी बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं। इन उधारकताओं को नीलामी की सूचना विधिवत जारी नीलाम किए जाने वाले सोने के आभूषण हमारे विभिन्न ग्राहकों के उन अतिदेय ऋण खातों से संबंधित हैं

जिनका विवरण शास्त्रा के नाम के साथ नीचे दिया गया है: गानियाबाद शाखाः GL0000000279475, GL0000000280224, GL0000000286611.

GL0000000292181, GL0000000294282, GL0000000296376, GL0000000331390, GL0000000336331

नीएडा भंगेल शास्त्रा: GL0000000217740, GL0000000295859, GL0000000301838. GL0000000330883. GL0000000301896. GL0000000302500.

GL0000000332164, GL0000000332809, GL0000000335580 नोएडा सेक्टर-18 शाखाः GL0000000260138

अधिक जानकारी के लिए, कृपया टुकैप फाइनेंस लिमिटेड से संपर्क करें।

संपर्क व्यक्तिः सतीश कुमार

संपर्क नं.: 9560735444 टुकैप फाइनेंस लिमिटेड को बिना किसी पूर्व सूचना के नीलाम किए जाने वाले खातों की संख्या में बदलाव करने और नीलामी को स्थगित/रद्र करने का अधिकार है।

टुकैप फाइनेंस लिमिटेड

सिटीगोल्ड क्रेडिट कैपिटल लिमिटेड

CIN:L65921PB1993PLC013595 पंजी. कार्यालयः रूम नं. 555, 5वीं मंजिल, एलएसई बिल्डिंग, फिरोज गांधी मार्केट, लुधियाना, पंजाब 141001 कॉपोरेंट कार्यालयः 467, लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, फिरोज गांधी मार्केट, लुधियाना, पंजाब-141001

टेलि.: 0161-4062814, ईमेल: cgccl1993@gmail.com, वेबसाइट: www.citygoldcreditcapitallimited 32वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में सचना

एतद्दवारा सुचित किया जाता है कि कॉपोर्रेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी सभी संबंधित परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों, और प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी के सदस्यों की 32वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 30 सितंबर 2025 को दोपहर 02:00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम "एवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी जिसमे एजीएम के सूचना में उल्लिखित व्यवसायों का निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2024-25 की कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें एजीएम सचना, बोर्ड रिपोर्ट, स्टैंडअलोन ऑडिटेड वित्तीय विरण और उनसे सर्बोधत अन्य आवश्यक दस्तावेज शामिल होगे, केवल उन कंपनी सदस्यों को इलेक्ट्रानिक रू से भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी या उसके शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (ओं) के साथ लागु एमसीए/सेबी द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार पंजीकृत हैं। जिन सदस्यों के ईमेल पते कंपनी, एमयूएफजी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें एक पत्र भेजा जाएगा जिसमें वेब लिंक और सटीक पथ शामिल होगा जहाँ वित्तीय वर्ष 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध है। एजीएम की सूचना, उपरोक्त दस्तावेजों के साथ, कंपनी की वेबसाइट cgccl1993@gmail.com पर और स्टॉक एक्सचेंज, यानी एमएसईआई लिमिटेड की वेबसाइट https://www.msei.in/ पर भी उपलब्ध होगा तािक

एतद्वारा कंपनी के सदस्यों को एक बार पुनः उनके केवाईसी को जल्द से जल्द अद्यतन करने की सलाह दी जाती है, ताकि कंपनी द्वारा सदस्यों से संबंधित समय-समय पर की जाने वाली विभिन्न लाभों/गतिविधियों का लाभ उठाया जा सके। केवाईसी/ईमेल पता पंजीकृत/अद्यतन करने की विधिः

) भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्य को सलाह दी जाती है कि वे आईएसआर फॉर्म, जे vishaldixit@in-mpms.-mufg.com पर उपलब्ध है, जमा करके कंपनी या निचे टेक के साथ अपना केवाईसी, जिसमें ईमेल पता पंजीकृत करना शामिल है, अद्यतन करें।

i) इलेक्ट्रॉनिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्य से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी,ज) के साथ अपना ईमेल आईडी, पता, टेलीफोन नं./मोबाइल नं. पंजीकृत/अद्यतन करें। -वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की विधि:

कंपनी अपने सदस्यों को ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है, ताकि वे एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके, साथ ही एजीएम की कार्यवाही के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मत डाल सकें। कंपनी ने सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल (नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड) की सेवाएं ली हैं। ई-वोटिंग के लिए निर्देश एजीएम सूचना

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की विधि:

सदस्यों को इसके बारे में सचित किया जा सके।

सदस्य www.evoting.nsdl.com के माध्यम से वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में भाग ले सकेंगे। एजीएम मे शामिल होने के लिए उपयोग किए जाने वाले लॉगिन क्रेडेंशियल्स और अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में जानकारी एजीएम सूचना में बताई गई है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम सूचना,विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने के निदेशों और रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में मतदान के माध्यम से वोट डालने की विधि को ध्यान से पढ़ें।

बोर्ड के आदेशानुसार सिटी गोल्ड क्रेडिट कैपिटल लिमिटेड के लिए

स्थानः मुंबई विनित तरुणकुमार ब्रह्मभू दिनांक: 08 सितंबर, 2025

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक

प्राधिकरण (एईआरए)

भारत सरकार

तीसरी मंजिल, उड़ान भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा,

नई दिल्ली-110003

फोन: 011-24695044

सार्वजनिक सूचना

सेवाओं की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता तथा संबद्ध

गतिविधियों से संबंधित प्रमुख हवाई अड्डों के प्रदर्शन मानकों

नागरिक उड्डयन मंत्रालय, एईआरए अधिनियम, 2008 की धारा

51(2)(1) के प्रावधानों के अनुसार, सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता

और विश्वसनीयता तथा संबद्ध गतिविधियों से संबंधित प्रमुख हवाई

अड्डों के प्रदर्शन मानकों के लिए नियम तैयार करने की प्रक्रिया में

है। इस संबंध में, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक

प्राधिकरण (एईआरए) ने 18.08.2025 को एक परामर्श पत्र संख्य

03/2025-26 जारी किया है, जिसमें प्रस्तावित प्रदर्शन मानकों सहित

उनकी निगरानी प्रणाली शामिल है (जो एईआरए की वेबसाइट

परामर्श पत्र में शामिल विभिन्न प्रस्ताव हितधारकों के परामर्श के लिए

प्रस्तुत किए गए हैं। इस संबंध में हितधारक परामर्श बैठक

(शारीरिक/ऑनलाइन) हाइब्रिड मोड में 10 सितंबर, 2025 को

भारतीय विमानन अकादमी.

वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070

हवाई अड्डा संचालकों, एयरलाइनों, यात्रियों/यात्री संघों, आम

जनता, उद्योग संघों/निकायों, कार्गों के लिए स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं,

ग्राउंड हैंडलिंग ईंधन फार्म आदि जैसे सभी हितधारकों से अनुरोध है

कि वे उक्त बैठक में शामिल हों और सेवा एवं संबद्ध गतिविधियों की

गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता से संबंधित प्रमुख हवाई

अड्डों के प्रदर्शन मानकों के निर्माण हेतु उपरोक्त परामर्श पत्र पर

ऑनलाइन जुड़ने के इच्छुक प्रतिभागियों के लिए, लिंक एईआरए

वेबसाइट (https://aera.gov.in) पर हितधारक बैठक से पहले

हस्ता./-

सचिव, एईआरए

'समाचार और घोषणाएँ'' टैब के अंतर्गत उपलब्ध होगा।

युआरएल https://aera.gov.in पर उपलब्ध है)।

दोपहर 01:30 बजे निम्न स्थान पर निर्धारित है:

अपने बहुमूल्य सुझाव/टिप्पणियाँ/विचार दें।

cbc03112/12/0008/2526

के निर्माण हेतु हितधारकों की परामर्श बैठक।

भारत सरकार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2024

25 अगस्त, 2025 को प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में, पुरस्कार के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 **सितंबर**, 2025 तक बढ़ा दी गयी है।

वेबसाइटः https://awards.gov.in/

विज्ञापन के अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे।

cbc47107/11/0010/2526

DEALS

रॉकिंगडिल्स सर्कुलर इकोनॉमी लिमिटेड सीआईएनः L29305DL2002PLC116354, पंजीकृत कार्यालयः 12/3 माइलस्टोन, सरई मेट्रो स्टेशन के पास, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 वेबसाइटः www.rdcel.com, ई-मेलः compliance@rockingdeals.in

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('VC')/अन्य ऑडियो-विज्अल माध्यम ('OAVM') के जरिए आयोजित होने वाली 23वीं वार्षिक आम बैठक की नोटिस

एततद्वारा सूचित किया जाता है कि रॉकिंगडिल्स सर्कुलर इकोनॉमी लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 23वीं वार्षिक आम बैठक ('ई-एजीएम') मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को दोपहर 3:00 बजे (IST) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('VC')/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम ('OAVM') के जरिए आयोजित की जाएगी। यह बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और 8 अप्रैल, 2020 के सामान्य सर्कुलर संख्या 14/2020 तथा इस संबंध में जारी अन्य सर्कूलर के अनुसार, और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) द्वारा 19 सितंबर, 2024 को जारी सर्कुलर संख्या 09/2024 और अन्य संबंधित सर्कुलर के अनुसार, तथा 3 अक्टूबर, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी सर्कूलर संख्या SEBI/HO/PoD-2/P/CIR/2024/133 के अनुसार होगी।

उपरोक्त सर्कुलर के अनुसार, 23वीं ई-एजीएम के नोटिस और वित्तीय वर्ष 2024-25 की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां 6 सितंबर, 2025 को उन सभी सदस्यों को भेजी गई हैं, जिनके ईमेल एड्रेस कंपनी / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास रजिस्टर्ड हैं। सेबी (लिस्टिंग दायित्व और सूचना आवश्यकताएं) नियम, 2015 के नियम 36(1)(b) के अनुसार, उन शेयरधारकों को, जिनके ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं हैं, कंपनी की वेबसाइट का वेबलिंक और पता भेजा गया है, जहां से वार्षिक रिपोर्ट देखी जा सकती है। एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट के साथ नोटिस की हार्ड कॉपी केवल उन सदस्यों को उनके रजिस्टर्ड पते पर भेजी जाएगी, जो स्पष्ट रूप से हार्ड कॉपी की मांग करते हैं। इसके अलावा, ई-एजीएम में चर्चा किए जाने वाले एजेंडे से संबंधित दस्तावेज, 23वीं ई—एजीएम के नोटिस में बताए गए तरीके के अनुसार जांच के लिए उपलब्ध कराए

सदस्यों की सुविधा के लिए ई-एजीएम का नोटिस निम्नलिखित वेबसाइटों पर उपलब्ध होगाः

1. कंपनी की वेबसाइटः www.rdcel.com

2. स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www-nseindia-com) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com)

3. बिगरोयर वेबसाइटः https://www.bigshareonline.com/

केवल वे सदस्य, जिनका नाम 'कट-ऑफ डेट' यानी मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 को सदस्यों के रजिस्टर / बेनिफिशियल ओनर्स की सूची में दर्ज है, 23 सितंबर की ई-एजीएम के नोटिस में दिए गए प्रस्तावों पर वोट देने के हकदार होंगे। कोई भी व्यक्ति जो ई-एजीएम नोटिस जारी होने के बाद कंपनी के शेयर खरीदकर कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ डेट पर शेयर रखता है, वह अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से prasadm@bigshareonline.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

रिमोट ई-वोटिंग और ई-एजीएम में वोटिंग की जानकारी:

सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ('रिमोट ई–वोटिंग') का उपयोग करके वोट डालने की सुविधा छैक्स द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी नीचे दी गई है:

रिमोट ई-वोर्टिंग की शुरूआतः रानिवार, 27 सितंबर, 2025 (सुबह 9.00 बजे IST) रिमोट ई-वोर्टिंग का समापनः सोमवार, 29 सितंबर, 2025 (शाम 5.00 बने IST) ई-एजीएम के दौरान उन सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी जिन्होंने ई-एजीएम से पहले वोट नहीं दिया है। यह सुविधा ई-एजीएम के अंत में 30 मिनट के लिए खुली रहेगी। जो सदस्य ई-एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग से वोट दे चुके हैं, वे ई-एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं, लेकिन वे दोबारा वोट नहीं दे सकेंगे।

सदस्य https://www.evoting.nsdl-com/ पर जाकर ई–एजीएम में भाग ले सकेंगे। इसके अलावा, ई–एजीएम में शामिल होने और रिमोट ई–वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया 23वीं ई–एजीएम के नोटिस में दी गई है।

स्पीकर के रूप में पंजीकरण करने और अपने प्रश्न पोस्ट करने का तरीकाः जो सदस्य मीटिंग में स्पीकर के तौर पर अपने विचार व्यक्त करना या सवाल पृछना चाहते हैं, वे 09

सितंबर, 2025 (सुबह 9.00 बजे IST) और 16 सितंबर, 2025 (शाम 5.00 बजे IST) के बीच अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से Compliance@rockingdeals-in पर एक अनुरोध भेजकर अपना प्री-रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अनुरोध में अपना नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी / फोलियो नंबर. पैन और मोबाइल नंबर शामिल करें।

कंपनी के पास ई-एजीएम के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों और बोलने वालों की संख्या को सीमित करने का अधिकार है, यह ई-एजीएम के लिए उपलब्ध समय पर निर्भर करेगा। इसके लिए विस्तृत प्रक्रिया 23वीं ई-एजीएम के नोटिस में दी गई है।

रॉकिंगडिल्स सर्कुलर इकोनॉमी लिमिटेड के लिए

दिनांकः 06/09/2025

दीपिका दीक्षित स्थानः फरीदाबाद कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर

R R Financial Consultants Limited CIN: L74899DL1986PLC023530

Regd. off:- 412-422, 4th Floor, Indraprakash Building, 21 Barakambha Road. New Delhi-110001 Phone:- 011-44441111 Email id:- cs@rrfcl.com Website:- www.rrfcl.com NOTICE OF THE 38th ANNUAL GENERAL MEETING. **EVOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that the 38h Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Tuesday, September 30, 2025 at 12.30 P.M (IST) through Video Conferencing (VC) Other Audio Video Means (OAVM). The venue of the meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') & the Rules made thereunder & the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI LODR') read with General circulars No. 02/2022 dated 05.05.2020 and General circulars No. 02/21 dated 03.01.2021, General circulars No. 20/2021 dated 08. 12:2021, General circulars No. 21/2021 dated 14.12:2021 & General Circular No. 02/2022 dated 05:05:2022 & other applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI (collectively referred as relevant circulars) without the physical presence of the members. Members participating through VC/OAVM shall be

38th AGM Notice along with the Annual Report 2024-25, has been sent to all the members of the Company whose email address is registered with the Company/ DP(s) through electronic mode. The shareholders holding physical shares will also get the Notice of the 38th AGM through Post, as per Regulation 36 (1) (b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ('SEBI Listing Regulations, 2015') which includes the weblink, including the exact path, where complete details of the Annual Report are available The same will also be available on the Company's website www.rrfcl.com & on BSE website www.bseindia.com & on the Company's RTA, MUFG Intime India Pvt. Ltd. website at

Notice pursuant to section 91 of the Act, and Regulation 42 & 47 of 'SEBI LODR' is hereby given that the Register of Members & Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Wednesday, September 24, 2025 to Tuesday, September 30, 2025, (both days

Manner of registering/ updating email addresses for obtaining AGM Notice, Annual Report 2024-25 and/ or login credential for joining the AGM through VC/ OAVM including e-voting Members who have not registered their email address and in consequences the Annual

Report, AGM Notice & e-voting instructions cannot be serviced, may temporarily get their email address and mobile number registered with MUFG Intime India Private Limited by accessing the link https://in.mpms.mufg.com/ or call them at :- Tel: 022 - 49186000. Members are requested to follow the process as guided to capture the email address and mobile number for sending the soft copy of the notice and e-voting instructions along with user ID and Password.

Alternatively, members may send an e-mail request at the email id cs@rrfcl.com along with scanned copy of the signed request letter providing the e-mail address, mobile number, self-attested PAN copy and copy of share certificate in case of physical folio for sending the Annual Report, AGM Notice & the e-voting instructions.

In order to enable the Company to comply with MCA circulars and to participate in the green initiative in corporate governance, members are requested to register their email addresses in respect of shares held in electronic form with their DP(s) permanently for sending the Annual Report, AGM Notice & the e-voting instructions. Manner of casting vote(s) through e-voting and joining the AGM.

a) Members can cast their vote(s) on the business as set out in the notice of the AGM through electronic voting system (e-voting)

b) The manner of voting remotely (remote e-voting) by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses in providing in the notice of AGM

d) The facility for e-voting will also be made available at the AGM and Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM. d) The login credential for casting votes through e-voting shall be made available to the members through email. Members who do not receive email or whose email addresses

are not registered with the Company/ MIIPL / DP(s), may generate login credentials by

following instructions given in the Notes to notice of AGM The same login credentials may also be used for attending the AGM through VC/ OVAM. Electronic copies of the 38th AGM Notice & the Annual Report of the Company for the FY 2024-25 has been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company Depository participant(s). The 38th AGM Notice and the Annual Report for the FY 2024-25 is

also available on the Company's website www.rrfcl.com. Members holding shares either in physical form or in demateralised form, as on the cutoff date of 23rd September, 2025, may cast their vote electronically on the Ordinary or/ and Special Business(es) as set out in through electronic voting system of MUFG Intime India Private

The Members are informed that

been completed on 6th September, 2025. b) E-voting shall commence on Saturday, 27th September, 2025 at 9 am & ends on Monday 29th September, 2025 at 5 pm. Remote e-voting module shall be disabled post this date and time i.e., 29th September, 2025 at 5 pm.

a) The electronic transmission of Annual Report, 38th AGM Notice & other documents has

 In case of any queries, members may visit Help and FAQ section & e-voting manual available at www.in.mpms.mufg.com, under Help section or write an email to Insta@in.mpms.mufg.com or call them at :- Tel : 022 - 49186000. For and on behalf of the Board of

R R Financial Consultants Limited Rajat Prasad

Managing Director

DIN: 00062612

08 सितंबर, 2025

Place: New Delhi

ईमेलः cs@aspireinnovate.in, फोन नंबरः 0124-2213055 वेबसाइटः www.aspireinnovate.in 08वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा ई-वोटिंग की जानकारी

एस्पायर एंड इनोवेटिव एडवरटाइजिंग लिमिटेड

(पूर्व की एस्पायर एंड इनोवेटिव एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड)

CIN: L52601DL2017PLC321445

पंजीकृत कार्यालयः सी-4 बलदेव पार्क, पूर्वी दिल्ली, शाहदरा, दिल्ली, भारत, 110051

कॉपोर्रेट कार्यालयः दूसरी मंजिल, प्लॉट नंबर - 52, सेक्टर-44, गुरुग्राम, हरियाणा-122003

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कॉपोरेंट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक ध अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या 19/2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021, परिपत्र संख्या 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021, परिपत्र संख्या 2/2022 दिनांक 5 मई, 2022, परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022, परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 और परिपत्र संख्या 9/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड द्वारा इस संबंध में जारी सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022, परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी- 2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023, परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी- 2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 और सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 (इसके बाद सामृहिक रूप से 'परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में एजीएम आयोजित करने की सूचना में निर्धारित कारोबार सम्पन्न करने के लिए एस्पायर एंड इनोवेटिव एडवरटाइजिंग लिमिटेड ('कंपनी') की 08वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को शाम 04:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की 08वीं एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट ('वार्षिक रिपोर्ट') की सुचना उन सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से भेज दी गई है जिनके ई-मेल पते उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ('डीपी') के पास पंजीकृत थे। ईमेल प्रसार 07 सितंबर, 2025 को पूरा हो गया है। 08वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) और वार्षिक रिपोर्ट की सचना कंपनी की वेबसाइट www.aspireinnovate.in, स्टॉक एक्सचेंज (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) की वेबसाइट www.nseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी

एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के लिए निर्देश:

यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108 और अन्य लागू प्रावधानों, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सेबी सूचीबद्धता विनियम') के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक और उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पहले) और ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान) के माध्यम से 08वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय पर अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्न है। कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल को एजेंसी के रूप में नियुक्त

केवल वे सदस्य जिनके नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 को डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित सदस्यों/लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे। सदस्यों का मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं

रह जाता है, उसे इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से ही लेना चाहिए। रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 26 सितंबर, 2025 (सुबह 9:00 बजे, भा.मा.स.) से शुरू होकर सोमवार, 29 सितंबर, 2025 (शाम 5:00 बजे, भा.मा.स.) को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकेंगे। इसके बाद, एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉडयल को निष्क्रिय कर

एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डालने वाले

सदस्य एजीएम के दौरान मतदान कर सकेंगे। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से दोबारा वोट नहीं डाल सकेंगे।

एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, उन्हें बाद में इसे बदलने की अनुमित नहीं होगी। रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम में शामिल होने, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग, ई-मेल पते का पंजीकरण और लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए विस्तृत निर्देश 08वीं एजीएम की सूचना में दिए गए हैं।

कोई भी व्यक्ति, जो 8वीं एजीएम की सुचना जारी होने की तिथि के बाद शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है, वह 8वीं एजीएम की सचना में उल्लिखित निर्देशों का पालन करके या evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही एनएसडीएल या सेंटल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड के साथ रिमोट ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत है, तो वह 8वीं एजीएम की सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। कंपनी के निदेशक मंडल ने एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष

और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए संदीप कुमार एंड एसोसिएट्स के कार्यरत कंपनी सचिव श्री संदीप कमार को संवीक्षक नियक्त किया है।

किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders तथा e-voting user manual for Shareholders देख सकते हैं या 022-4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या ट्रेड वर्ल्ड, एवेन्यू 4 फुट, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई-400013 पर एनएसडीएल को अनुरोध भेज सकते हैं या evoting@nsdl.com पर ईमेल कर सकते हैं।

एस्पायर एंड इनोवेटिव एडवरटाइजिंग लिमिटेड की ओर से

दिनांक: 8 सितंबर, 2025 स्थानः नई दिल्ली कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

> एडवांस स्टील ट्यूब्स लिभिटेड (CIN: L24231UP1978PLC004583)

पंजीकृत कार्यालयः 45/3, इंडस्ट्रियल एरिया, साइट IV, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201020, भारत कॉर्पोरेट कार्यालयः 81, फंक्शनल इंडस्ट्रियल एस्टेट, पटपड़गंज, दिल्ली-110092, भारत E-mail:cs@advance.co.in/ info@advance.co.in, Website:www.advance.co.ir

Tel.: 011-43041400

51वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर और ई-वोर्टिंग का नोटिस

एततद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 51वीं वार्षिक आम बैटक (एजीएम) मंगलवार 30.09.2025 को सुबह 10:30 बजे 45/3, इंडस्ट्रियल एरिया, साइट IV, साहिबाबाद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201020 में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में 30 मई, 2025 के ।ळड नोटिस में उल्लिखित कार्य किए जाएंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के खंड 108 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 (संशोधित) तथा सेबी (लिस्टिंग दायित्व और सूचना आवश्यकताएं) नियम 2015 के नियम 44 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा (रिमोट ई-वोटिंग) प्रदान कर रही है तािक वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट कर सकें। इसिलए एजीएम के नोटिस में दिए गए कार्य नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (छैक्स) द्वारा प्रदान की गई रिमोट ई-वोटिंग सुविधा से किए जा सकते हैं।

सेबी सर्कुलर के अनुसार, सदस्यों को सुचित किया जाता है कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 'एजीएम का नोटिस और वार्षिक रिपोट' भेज दी है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और सेबी द्वारा जारी सर्कूलर के अनुसार, 08.09.2025 तक कंपनी / डिपॉजिटरी के पास ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड शेयरहोर्ल्डर्स को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यह जानकारी दी जाएगी। लिस्टिंग नेयमों के नियम 36(1)(इ) के अनुसार, जिन सदस्यों ने 06.09.2025 तव कंपनी / डिपॉजिटरी / बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड (आरटीए) व साथ अपना ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड नहीं कराया है, उन्हें एक लेटर भेजा जाएगा। इस लेटर फत कोड और वेबलिंक होगा, जिससे वार्षिक रिपोर्ट की पूरी जानकारी मिल सकेगी। सदस्यों को यह भी सचित किया जाता है कि:

(a) रिमोट ई-वोटिंग 27.09.2025 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी और 29.09.2025 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। इसके बाद छैकर द्वारा इसे बंद कर दिया जाएगा।

(b) वह व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ डेट यानी 23.09.2025 को डिपॉजिटरी द्वारा रखे ग सदस्यों के रजिस्टर या लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, वह ही रिमोट ई-वोटिंग सुविधा और ।ळड में पोल पेपर के माध्यम से वोटिंग का हकदार होगा। जो व्यक्ति कट-ऑफ डेट को सदस्य नहीं है, उसे यह नोटिस केवल जानकारी के लिए समझन चाहिए। वोटिंग अधिकार कंपनी के सदस्यों के नाम पर उस तारीख को रजिस्टर्ड शेयरो के पेड-अप मुल्य के आधार पर तय किए जाएंगे।

कोई गैर-व्यक्तिगत शेयरहोल्डर या फिजिकल मोड में सिक्योरिटी रखने वाला शेयरहोल्डर जो नोटिस भेजने के बाद कंपनी के शेयर खरीदता है और 23.09.2025 की कट-ऑफ डेट को कंपनी का सदस्य बन जाता है, वह evoting@nsdl.com पर एक अनुरोध (नाम फोलीओ नंबर / DP ID और क्लाइंट ID, शेयरहोल्डिंग के साथ) भेजकर या टोल फ्री नंबर 022-4886 7000 पर कॉल करके या आरटीए को beetalrta@gmail.com पर या 011-29961281, 29961282 पर कॉल करके ई-वोटिंग के लिए यूजर ID और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए NSDL/CDSL में रजिस्टर्ड है, तो वह वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर ID और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मोड में सिक्योरिटी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरहोल्डर जो नोटिस भेजने के बाद कंपनी के शेयर खरीदते हैं और कट-ऑफ डेट को कंपनी के सदस्य बन जाते हैं, वे ।ळड के नोटिस में बताए गए लॉगिन प्रोसेस का पालन कर सकते हैं। सदस्य छैक्स या ब्वैस के साथ रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट अकाउंट के मौजूदा लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर

एजीएम में बैलेट पेपर से वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी और जो सदस्य रिमोट ई—वोटिंग से वोट नहीं दे पाए होंगे, वे एजीएम में बैलेट पेपर से अपना वोट दे सकेंगे। कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग से वोट देने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है, लेकिन

उसे एजीएम में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगीय कंपनी का शेयरहोल्डर रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक 24.09.2025 से 30.09.2025 (दोनो दिन शामिल) तक बंद रहेगा.

f) सीएस विपिन शुक्ला, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, दिल्ली (सदस्य संख्याः एफ6798, सीओपी 18011) रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए स्क्रूटिनाइजर के रूप में काम करेंगे, और

वार्षिक रिपोर्ट और ।ळड का नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.advance.co.in और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों जैसे www.cse-india.com पर उपलब्ध है। इसकी एक कॉपी छैक्स की वेबसाइट www.evotin.nsdl-com पर भी उपलब्ध है। —वोटिंग निर्देशों के लिए सदस्यों से अनरोध है कि वे एजीएम के नोटिस में दिए गए निर्देशों

को ध्यान से पढें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और शेयरधारकों के लिए रिमोट ई—वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं या ऊपर दिए गए ईमेल आईडी पर NSDL और RTA से संपर्क कर सकते हैं। एजीएम के नोटिस में दिए गए प्रस्तावों पर वोटिंग का परिणाम निर्धारित समय में घोषित किया

जाएगा। कंपनी के चेयरमैन द्वारा परिणाम घोषित करने के तूरंत बाद, स्क्रुटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.advance.co.in और NSDL की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा और परिणाम स्टॉक एक्सचेंज को भी सूचित किया जाएगा और इसे रजिस्टर्ड ऑफिस और कॉर्पीरेट ऑफिस पते पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। एडवांस स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के लिए

देवकी नंदन अग्रवाल

प्रबंध निदेशक DIN: 00586794

RRP Defense Ltd.

कॉर्पोरेट कार्यालयः दूसरी फ्लोर, प्लॉट नंबर बी-103, साउथ सिटी-1, गुरुग्राम, हरियाणा-122001.

सीआईएनः L26515DL1981PLC012621, संपर्कः +91 8655875993, ईमेल आईडीः rrpdefense@gmail.com

44वीं वार्षिक आम बैठक का नोटिस, रिमोट ई-वोर्टिंग जानकारी और बुक क्लोजर . एततद्वारा सूचित किया जाता है कि आरआरपी डिफेंस लिमिटेड (पूर्व में यूरो एशिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के नाम से जानी जाती है) के सदस्यों की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 29 सितंबर, 2025 के दोपहर 12:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (VC/OAVM) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यह बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार और समय-समय पर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य सर्कुलर के अनुसार एजीएम के नोटिस में बताए गए कार्यो को पूरा करने के लिए होगी।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की एजीएम का नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां सभी सदस्यों को भेजी गई हैं, जिनके ईमेल आईडी कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ 22 सितंबर, 2025 की कट-ऑफ तिथि तक पंजीकृत हैं। कृपया ध्यान दें कि एमसीए सर्कुलर के अनुसार सदस्यों को एजीएम के नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता नहीं है। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.euroasiaexportsttd.com पर भी उपलब्ध होगी और वहां से डाउनलोड की जा सकती है।

सदस्यों द्वारा वोट डालने की सुविधा ("ई-वोटिंग") NSDL (नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड) द्वारा प्रदान की जाएगी और इसके लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम के नोटिस में दी गई है। रिमोट ई-वोटिंग 26 सितंबर 2025 (शुक्रवार) से 28 सितंबर 2025 (रविवार) तक चलेगी। इस अवधि में, कंपनी के सदस्य, जिनके पास 22 सितंबर 2025 की कट-ऑफ डेट तक फिजिकल या डीमैट फॉर्म में शेयर हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के समय ई-वोटिंग से वोट दे सकते हैं। एक्ट के सेक्शन 103 के तहत कोरम तय करने के लिए, व्यक्तिगत रूप से भाग लेने वाले सदस्यों को भी गिना जाएगा।

जो सदस्य फिजिकल/इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर रखते हैं और जिनका ईमेल एड्रेस कंपनी/उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास रजिस्टर्ड नहीं है, उनसे अनूरोध है कि वे अपना ईमेल एड्रेस जल्द से जल्द रजिस्टर करवाएं। इसके लिए सदस्य अपना नाम, पूरा पता, फोलीओ नंबर, कंपनी में उनके पास शेयरों की संख्या. पैन कार्ड की सेल्फ-अटेस्टेड स्कैन कॉपी और निम्नलिखित में से किसी एक डॉक्युमेंट की सेल्फ-अटेस्टेड स्कैन कॉपी (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल या कोई अन्य सरकारी डॉक्यूमेंट) भेजें। यह डॉक्यूमेंट सदस्य के पते के सबूत के तौर पर होना चाहिए। यह सब info@skvlinerta.com पर ईमेल करके भेजना होगा। इससे उन्हें ईमेल से एजीएम नोटिस और 2024–25 का एनुअल रिपोर्ट मिलेगा। डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपना ईमेल एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। एजीएम नोटिस में शेयरहोल्डर को रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के समय ई-वोटिंग से वोट देने के तरीके के बारे में जानकारी दी गई है।

कंपनी का शेयरहोल्डर रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक 22 सितंबर 2025 (सोमवार) से 29 सितंबर 2025

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए AGM का नोटिस और एनुअल रिपोर्ट लागू नियमों के अनुसार सदस्यों को समय पर भेजा जाएगा।

> आरआरपी डिफेंस लिमिटेड के लिए (पूर्व में यूरो एशिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड)

राजेंद्र कमलकांत चोडंकर मैनेजिंग डायरेक्टर डीन- 00665008

SC AGROTECH LIMITED

स्थानः दिल्ली

दिनांकः 08.09.2025

CIN: L01122DL1990PLC042207 Registered Address: Flat 207, 2nd Floor, Pragati Tower, Rajendra Place, Patel Nagar (Central Delhi), Central Delhi, New Delhi, Delhi, India, 110008

NOTICE OF THE 35th ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY AND E-VOTING NOTICE is hereby given, the Annual General Meeting (AGM) of the Members of **SC AGROTECH LIMITED** to be held on Saturday, September 27, 2025 at 04:00 P.M. at Flat 207, 2nd Floor, Pragati Tower, Rajendra Place, Patel Nagar (Central Delhi), Central

Delhi, New Delhi, Delhi, India, 110008 to transact the business mentioned in the

Email: sheel102@gmail.com **Tel. No.**: 97129 95234 **Web**: www.scagrotech.in

Notice of AGM dated 05th September, 2025, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and rules framed thereunder read with General Circulars issued by MCA/SEBI time to time. In accordance with the General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 issued by SEBI (hereinafter collectively referred to as "the Circulars") the Notice of AGM has been sent through electronic mode only to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories. Member may note that Notice will be uploaded on the

Limited at www.bseindia.com and website of National Securities Depository Limited (NSDL) i.e. www.evoting.nsdl.com Members whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Saturday, September 20, 2025 ("Cut-off date"), shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as

website of the Company at https://scagrotechltd.in/updates/notice website of BSE

well as e-voting on the date of Annual General Meeting. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rules made thereunder (as amended) and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 (as amended) and above-mentioned MCA Circulars, the Company is providing facility of remote e-voting and e-voting on the date of the AGM to its Members in respect of the businesses to be transacted at the AGM. For this purpose, the Company has entered into an agreement with NSDL for facilitating voting through electronic means.

The remote e-voting will commence on 9:00 A.M. on Wednesday, September 24, 2025 and will end on 5:00 P.M. on Friday, September 26, 2025. During this period, the members of the Company holding shares as on Cut-off date may cast their vote electronically (Remote E-Voting). Members may note that a) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility of e-voting shall be made available at the AGM; and c) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Detailed procedure for remote e-voting/ e-voting is provided in the Notice of the Annual General Meeting.

FOR SC AGROTECH LIMITED PRATIKKUMAR BHARATBHAI PATEL **Managing Director** DIN: 11211517



बी.एल. कश्यप एण्ड सन्स लिमिटेड

(CIN: L74899DL1989PLCO36148) पंजीकृत कार्यालय : 409, चौथी मंजिल, डीएलएफ टॉवर-ए, जसोला, नई दिल्ली-110025

दूरभाष : 011-40500300, 011-43058345, फैक्स : 011-40500333 ई-मेल : info@blkashyap.com; वेबसाइट : www.blkashyap.com 36वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर तथा रिमोट ई-वोटिंग की सुचना

एतदुद्वारा नोटिस दिया जाता है कि एजीएम की सुचना में निर्धारित साधारण एवं विशेष व्यवसाय के निष्पादन के लिए 'कंपनी' की 34वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को सुबह 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजी गई है जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत हैं। ई-मेल के माध्यम से एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण मंगलवार, 05 सितंबर, 2025 को पूरा हो गया है। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 कंपनी की वेबसाइट www.blkashyap.com, स्टॉक एक्सचेंज यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.nseindia.com तथा www.bseindia.com पर पर और आरटीए की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in/ पर भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा, कंपनी की वेबसाइट के सटीक पाथ सिहत वेब लिंक वाला एक पत्र, जहाँ 36वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट देखी जा सकती है, उन शेयरधारकों को भी भेजा गया है जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के

कट-ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2025 तक भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य एनएसडीएल के ई-वोटिंग सिस्टम (रिमोट ई-वोटिंग) के माध्यम से एजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यवसाय पर इलेक्टॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

सभी सदस्यों को सचित किया जाता है किः क) एजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यवसाय को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग के माध्यम से

निष्पादित किया जा सकता है। ख) रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, 27 सितंबर, 2025 को सबह 9:00 बजे शरू होगी और

सोमवार, 29 सितंबर, 2025 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। ग) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने या एजीएम में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तारीख मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 है।

घ) 29 सितंबर, 2025 को शाम 5:00 बजे के बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्युल अक्षम कर दिया जाएगा। उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी जाएगी। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डाल

दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमित नहीं दी जाएगी। ङ) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं. लेकिन दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

च) केवल वे व्यक्ति जिनके नाम कट-ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग की सविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे। छ) कोई व्यक्ति, जो नोटिस भेजने के बाद शेयर हासिल करता है और कंपनी का शेयरधारक

बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2025 को शेयर धारण करता है, वह रिमोट ई-वोटिंग के लिए एजीएम की सूचना में उल्लिखित निर्देशों का पालन करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। ज) 36वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर

बुक बुधवार, 24 सितंबर, 2025 से मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे। ई-वोटिंग की प्रक्रिया सदस्यों को भेजी गई वार्षिक आम बैठक की सूचना में उपलब्ध है। लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले शेयरधारक

instameet@in.mpms.mufg.com पर अनुरोध भेजकर इंस्टामीट हेल्पडेस्क से

संपर्क कर सकते हैं या फोनः 022 - 4918 6000 / 4918 6175 पर संपर्क कर सकते हैं।

कृते बी.एल. कश्यप एण्ड सन्स लिमिटेड

पुष्पक कुमार वीपी एवं कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली WE BUILD YOUR WORLD

दिनांक : 8 सितम्बर, 2025

epaper.jansatta.com